

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिसंबर 2019 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में समूह 'ग' के विभिन्न पदों को भरने हेतु दिनांक 03.12.2019 को संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2019 की सूचना जारी की है।
2. कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन किया:
 - सीएपीएफ में उप-निरीक्षक, सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक तथा दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक- 09.12.2019 से 13.12.2019 तथा 31.12.2019
 - संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा -2018 (टीयर-III) -29.12.2019
 - कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, इलैक्ट्रिकल और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा-2018 (प्रश्न-पत्र-II)-29.12.2019

इसके अतिरिक्त, आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं:

- कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी, इलैक्ट्रिकल और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा-2018 (प्रश्न-पत्र-I)- का परिणाम दिनांक 12.12.2019 को घोषित किया गया।
- असम राइफल्स परीक्षा-2018 - का परिणाम दिनांक 17.12.2019 को घोषित किया गया।
- संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2017 (अंतिम परिणाम) का परिणाम दिनांक 20.12.2019 को घोषित किया गया।

3. मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची क एवं ख के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 16 मामलों (03 सीएमडी/एमडी तथा 13 कार्यात्मक निदेशक) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की सात (07) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालकों की तीन (03) नियुक्तियों, निजी सचिवों की नियुक्ति के एक (01) प्रस्तावों, विशेष कार्यकारी अधिकारी के दो (02) प्रस्ताव, गैर-सीएसएस पद पर नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, कार्यकाल विस्तार के पांच (05) प्रस्तावों और समयपूर्व प्रत्यावर्तन के दो (02) प्रस्तावों का मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदन किया गया।

4. दिसम्बर, 2019 माह के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) में 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इसमें 03 सीएसएस-सीटीपी (स्तर-घ-91, स्तर-घ-92 और स्तर-क-90) और 01 सीएसएसएस-सीटीपी (स्तर-I-14) कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 483 थी।

5. गैर-सांविधिक विभागीय जलपान-गृह के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कैंटीन निदेशक के विवेकाधीन निधि में से छात्रवृत्ति स्कीम के संशोधन से संबंधित दिशा-निर्देश दिनांक 24.12.2019 के का.जा. सं. 20/01/2011-निदेशक (कैंटीन) के माध्यम से जारी किए गए थे।